

BACHELOR'S DEGREE PROGRAMME

(BDP)

Term-End Examination

June, 2025

(Elective Course : Commerce)

ECO-12 : ELEMENTS OF AUDITING

Time : 2 Hours

Maximum Marks : 50

Weightage : 70%

Note : Attempt any *five* questions. All questions carry equal marks.

-
-
1. What are the advantages of auditing ? 10
 2. What is audit programme and how should it be prepared ? 3+7
 3. Discuss the essentials of a good internal check system. 10
 4. What do you mean by vouching ? Explain the importance of vouching. 3+7

5. Describe the position of an auditor as regards the valuation of assets in a company. 10
6. Distinguish between 'company audit' and 'partnership audit'. 10
7. What do you mean by clean report ? Under which circumstances auditors may give a qualified report ? 2+8
8. Write short notes on any *two* of the following : 5+5
 - (a) Internal Audit
 - (b) Cost Audit
 - (c) Internal control
 - (d) Window dressing

ECO-12**स्नातक उपाधि कार्यक्रम (बी. डी. पी.)****सत्रांत परीक्षा****जून, 2025****(ऐच्छिक पाठ्यक्रम : वाणिज्य)****ई.सी.ओ.-12 : अंकेक्षण के मूल तत्व**

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

भारिता : 70%

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. अंकेक्षण के क्या लाभ हैं ? 10
2. अंकेक्षण कार्यक्रम क्या होता है और इसे किस प्रकार बनाना चाहिए ? 3+7
3. एक अच्छी आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की आवश्यकताओं की चर्चा कीजिए। 10
4. प्रमाणन (वाउचिंग) से आप क्या समझते हैं? प्रमाणन के महत्व का वर्णन कीजिए। 3+7

5. कम्पनी की परिसम्पत्तियों के संबंध में अंकेक्षण की स्थिति की व्याख्या कीजिए। 10
6. 'कम्पनी अंकेक्षण' तथा 'साझेदारी अंकेक्षण' के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 10
7. निरपेक्ष रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? किन परिस्थितियों में अंकेक्षक सापेक्ष रिपोर्ट दे सकते हैं? 2+8
8. निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : 5+5
 - (क) आंतरिक अंकेक्षण
 - (ख) लागत अंकेक्षण
 - (ग) आंतरिक नियंत्रण
 - (घ) लीपा-पोती

× × × × ×